

तुरंत रिलीज के लिए

ब्रैम्पटन रीजनल काउंसलर पॉल विसेंट को ए.एम.ओ. के 2022 से 2024 के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए चुना गया

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (18 अगस्त, 2022) – कल 2022 एसोसिएशन ऑफ म्युनिसिपल्टीज (ए.एम.ओ.) (2022 Association of Municipalities (AMO) की वार्षिक जनरल मीटिंग और कान्फ्रेंस में, ब्रैम्पटन रीजनल काउंसलर पॉल विसेंट (Paul Vicente) को 2022 से 2024 की बोर्ड टर्म के लिए रीजनल और सिंगल टियर कॉकस (Single Tier Caucus) के मेम्बर के तौर पर, ए.एम.ओ. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए चुना गया।

ए.एम.ओ., एक गैर-लाभ संगठन है, जो ओनटैरियो की लगभग सभी 444 म्युनिसिपल सरकारों का प्रतिनिधित्व करता है। ए.एम.ओ., ओनटैरियो में मजबूत और प्रभावी म्युनिसिपल सरकार की हिमायत करता है और ओनटैरियो तथा कॅनेडा के राजनीतिक सिस्टम के महत्वपूर्ण और जरूरी अंग के तौर पर, म्युनिसिपल सरकार के महत्व का प्रचार करता है।

2022 से 2024 टर्म के दौरान, ए.एम.ओ., खास तौर पर आर्थिक बहाली और खुशहाली, प्लानिंग और वृद्धि, सस्ते घरों, आवासहीनता को खत्म करने, इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश, ब्रॉडबैंड विस्तार और ट्रांज़िट से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसके अलावा, ए.एम.ओ., सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर और उन नीतियों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जो ओनटैरियो में हर किसी को अपनी क्षमता का पूरा लाभ हासिल करने के योग्य बनाती हैं। पब्लिक हेल्थ, कम्युनिटी पैरामेडिसिन, लॉन्ग टर्म केयर, ह्यूमैन सर्विसिज, कम्युनिटी का मानसिक स्वास्थ्य और एडिक्शन में निवेश, ए.एम.ओ. की मुख्य प्राथमिकताओं को संपूर्ण करता है।

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने 14 से 17 अगस्त तक ए.एम.ओ. 2022 वर्चुअल कान्फ्रेंस (AMO 2022 Virtual Conference) में हिस्सा लिया था। अधिक जानकारी, [यहां \(here\)](#) प्राप्त करें।

हवाले

“ब्रैम्पटन सिटी काउंसिल की तरफ से, मैं काउंसलर विसेंट को ए.एम.ओ. के 2022 से 2024 के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए चुने जाने पर बधाई देता हूँ। ओनटैरियो में म्युनिसिपल्टीज के साथ मजबूत तथा प्रभावी साझेदारियां, अधिक ग्रीन कम्युनिटीज बनाने, वृद्धि को कायम रखने और अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए एडवोकेसी प्रयासों को आगे बढ़ाने में मदद करेंगी। एक मजबूत ब्रैम्पटन और पील रीजन के प्रति काउंसलर विसेंट की प्रतिबद्धता, हमारे निवासियों और ए.एम.ओ. के सभी मेम्बरों के लिए एक संपत्ति होगी।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“मैं, लगातार दूसरी टर्म के लिए ए.एम.ओ. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए चुने जाने पर सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। मैं ब्रैम्पटन की हिमायत के लिए और सिटी तथा रीजन की प्राथमिकताओं को प्रोविंसियल लेवल पर लाने के लिए, ओनटैरियो में म्युनिसिपल्टीज और हमारी संबंधित काउंसिलों के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्साहित हूँ। ”

- *पॉल विसेंट (Paul Vicente), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 1 और 5, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 70,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन मल्टीकल्चरल मीडिया

multiculturalmedia@brampton.ca